



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श0)

(सं0 पटना 641) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर 2011

सं0 22/नि0सि0(मुक0)—वीर0—19—16/2011/1206—श्री विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, (सेवा—निवृत्त) पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, कुनौली के विरुद्ध सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 4140/2006 विनय शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 21 जुलाई 2006 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में मेसर्स शाम्भवी कन्स्ट्रक्शन द्वारा वर्ष 2002—03 में पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, कुनौली के अन्तर्गत पश्चिमी कोशी तटबंध 2.25 कि0मी0 एवं 9.00 कि0मी0 पर अवस्थित स्पर पर कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में बरती गयी अनियमितता के बावजूद श्री शर्मा द्वारा किये गये भुगतान के मामले में प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय संकल्प—सह—ज्ञाप सं0 400, दिनांक 22 मई 2008 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43 बी0 में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 2946/2009 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 2946/2009 विनय शर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 11 अगस्त 2011 को न्याय निर्णय पारित करते हुए विभागीय ज्ञापांक 400, दिनांक 22 मई 2008 द्वारा निर्गत विभागीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री शर्मा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री विनय शर्मा को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
भरत झा,  
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 641-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>